

Series-A

A-902-A

Roll No.

(Graph Paper)

Total No. of Questions-34] [Total No. of Printed Pages-16

Copyright Reserved

A-902-A-X-2319

MATHEMATICS

(Hindi and English Versions)

Time Allowed-3 Hours

Maximum Marks-85

परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे।

*Candidates are required to give their answers in
their own words as far as possible.*

प्रियोग निर्देश :

Special Instructions :

- (1) अपनी उत्तर-पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के ऊपर बाईं ओर विर कर कृत
में प्रश्न-एवं संविधान अवलम्बन किये।

*You must write Question Paper Series in the circle
at the top left side of title page of your answer paper.*

following pair of linear equation by

Method:

निम्नलिखित दो रेखाएँ जीवा :

$$\frac{1 + \sec A}{\sec A} = \frac{\sin^2 A}{1 - \cos A}$$

Prove the Identity :

$$\frac{1 + \sec A}{\sec A} = \frac{\sin^2 A}{1 - \cos A}$$

दो रेखाएँ जीवा के बीच का अवधार है : $0, \sqrt{5}$

Find a polynomial each with the given sum and product of its zeros

$\sqrt{5}$

दो रेखाएँ जीवा के बीच का अवधार है : 6 से विभक्त

the first 40 positive integers

6, 11, 16, 21, ..., 56
12, 11

$\sin A$ और $\cos A$ का मान ज्ञात कीजिए।

the value of $\sin A$ and $\cos A$.

(10)

24. निम्नलिखित दो रेखाएँ जीवा के बीच का अवधार है : $(1, 5), (2, 3)$ और $(-2, -11)$ जीवा है।

Determine if the points $(1, 5), (2, 3)$ and $(-2, -11)$ are collinear.

25. 5 cm विन्दा के एक वृत तर लेनी से स्थान रेखाएँ जीवा हैं जो वापर 60° के बीच तर लगती हैं।

Draw a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60° .

26. एक वृत के चतुर्थांश (quadrant) का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाण 22 cm^2 है।


Find the area of a Quadrant of a circle whose circumference is 22 cm . $(? \angle 90^\circ)$

A-902-A


(11)

1/2 C P.T.O.

28. असूली में, आवासिक डिजाइन शेर का सेवण करता रहता है। यह 8 cm प्रत्येक के विष्वासी काले दो गुलों के बाहुदारी के लिए उपयोगिता है।



Calculate the area of the shaded design region in figure common between the two Quadrants of circle of radius 8 cm. each.



30. यदि दोनों परिवर्तन के बाद और इस दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो यह $\frac{9}{11}$ हो जाती है। यदि दोनों परिवर्तन के बाद दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो यह $\frac{5}{6}$ हो जाती है। यह परिवर्तन ज्ञात कीजिए।

A fraction becomes $\frac{9}{11}$, if 2 is added to both the numerator and the denominator. If, 3 is added to both the numerator and denominator it becomes $\frac{5}{6}$, find the Fraction.

31. दोनों के अवधार में और एक साथ रेशा में 4m और 9m की दूरी पर निकल दी गयी है। यदि दोनों के निकल के उत्तरदाय कोण एक हों तो : निकल की दूरी की ऊंचाई 6m है।

The Angles of elevation of the top of a tower from two points at a distance of 4m and 9m from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6m.

32. यदि दोनों भुजों की एक चूम वा एक छेद की चूम के बाहर हो, तो उनकी भुजों का सम्पूर्ण कोण ज्ञात होता है।

T. 10077

In a triangle, if square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite the first side is a right angle.

- 33.** भुजा 7cm की एक उम्मीदार बोल्ड के ऊपर एक अर्पणेता रखा हुआ है। अर्पणेते का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है ? इस प्रकार बने ढोका का तृतीय शेषफल ज्ञात कीजिए।

A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have ? Find the surface Area of the solid made like this.

- 34.** निम्नलिखित ग्राहनी छिंटी पोइंटों के 25 चौरायां में चोजन वर कुल दैनिक व्यव को दर्शाती है :

दैनिक व्यव (रु. में)	100-150	150-200	200-250	250-300	300-350
चौरायी की संख्या	4	5	12	2	2

एक उपकुप्त विधि द्वारा चोजन वर कुल व्यव को दर्शाएँ।

The table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality :

Daily Expenditure (in Rs.)	100-150	150-200	200-250	250-300	300-350
Number of households	4	5	12	2	2

Find the mean daily expenditure on food by a suitable method.

Solve the following pair of linear equation by:

Elimination Method :

$$3x - 5y = 4$$

$$9x - 2y = 7$$

21. एक विपरीत व्युत्पद गत वीजित निकाले गूणकों के बीच अवृत्तान्त क्रमांक या वृद्धि संखाएँ हैं : 0, $\sqrt{5}$

Find a Quadratic Polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively : 0, $\sqrt{5}$

22. ऐसे प्रयत्न 40 का गुणांक या दोग इत्यादि जो 6 से विभाज्य हो।

Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6.

23. यदि $\tan A = \frac{4}{3}$ हो तो $\sin A$ और $\cos A$ का पता करें।

If $\tan A = \frac{4}{3}$, find the value of $\sin A$ and $\cos A$.

A-902-A

(10)

विपरीत व्युत्पद वीजित :

$$\frac{1 + \sec A}{\sec A} = \frac{\sin^2 A}{1 - \cos A}$$

Prove the Identity :

$$\frac{1 + \sec A}{\sec A} = \frac{\sin^2 A}{1 - \cos A}$$

निम्नलिखित वीजित कि यह किसी दोनों है :

Determine if the points are collinear.

25. 5 cm दूरी के एक दूसरे पर दो रासायन 60° के बीच दो दूरी

Draw a pair of tangent which are inclined to each other at 60° .

26. एक चौराहा (quadri-lateral) की दोनों विकर्ण 22 cm हैं।

Find the area of a circle whose circumference is 22 cm.

A-902-A

(1)



a rhombus if its vertices
(-1) and (-2, -1) are taken in

न के लिए से 5 cm दूरी पर है,
4 cm है। तुल की विज्ञा जात

from a Point A at distance
the circle is 4 cm. Find the

$\approx 30^\circ \cos 60^\circ$

$\approx 30^\circ \cos 60^\circ$

E की की प्रतिक्रिया जात

the Probability of

प्रश्न-म

Section-C

3 अंक वाले प्रश्न :

All questions carry 3 marks each :

18. $x^3 - 3x^2 + 5x - 3$ को $x^2 - 2$ से भाग दीजिए।

Divide $x^3 - 3x^2 + 5x - 3$ by $x^2 - 2$.

19. निम्न ऐकान समीकरण युग्म को ग्राफिक रेखिय से हल करे

$$2x + y = 6$$

$$4x - 2y = 4$$

Solve the pair of linear equation graphically

$$2x + y = 6 \quad \text{---} \quad y = 6 - 2x \quad \text{---}$$

$$4x - 2y = 4 \quad \text{---}$$

20. निम्न ऐकान समीकरण युग्म को शिलोरन रेखिय से हल करे

$$3x - 5y = 4$$

$$9x - 2y = 7$$

(See 9th page)

A-902-A

(9.)



Find the area of a rhombus if its vertices $(3, 0)$, $(4, 5)$, $(-1, 4)$ and $(-2, -1)$ are taken in order.

15. एक विंदु A है, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 cm दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm है। वृत्त की विमा ज्ञात कीजिए।

The length of a tangent from a Point A at distance 5 cm from the centre of the circle is 4 cm . Find the radius of the circle.

16. मान ज्ञात कीजिए :

$$\sin 60^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 60^\circ$$

Evaluate :

$$\sin 60^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 60^\circ$$

17. यदि $P(E) = 0.05$ है तो 'E' नहीं की प्रायिकता ज्ञात करें।

If $P(E) = 0.05$, what is the Probability of "Not E"?

प्रश्न

Secti

3 अंक वाले प्रश्न :

All questions carry 3

18. $x^3 - 3x^2 + 5x - 3$ को

Divide $x^3 - 3x^2 + 5x$

19. निम्न ऐविक समीकरण में

$$2x + y = 6$$

$$4x - 2y = 4$$

Solve the pair of lin

$$2x + y = 6$$

$$4x - 2y = 4$$

20. निम्न ऐविक समीकरण

$$3x - 5y = 4$$

$$9x - 2y = 7$$



कहलाती है।

(a) उद्देश्य

points is called

(c) secant

इस रिक्त स्थान को

(संकेतात्म, समरूप)

word given in

ruent, Similar)

$3\pi r^2$

$3\pi r^2$

खण्ड-B

Section-B

2 अंक वाले प्रश्न :

All questions carry 2 marks each :

11. 140 को अभाव्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें।

Express 140 as a product of its Prime factors.

12. गिन्ह बोलिए कि $7\sqrt{5}$ एक अल्परिमेय संख्या है।

Prove that $7\sqrt{5}$ is an Irrational Number.

13. (-5, 7) और (-1, 3) विन्दुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

Find the Distance between the pair of points
(-5, 7) and (-1, 3).

14. एक समक्षात्मक वाले सेक्षन छात्र बोलिए जिसके बारे इसी क्षम में
(3, 0), (4, 5), (-1, 4) और (-2, -1) है।



8. दूसरे दो विचुओं पर काटने वाली रेखा कहलाती है -

- (a) वीजा (b) स्पर्श रेखा (c) ऐक्ट रेखा

A line Intersecting a circle in two points is called

- (a) Chord (b) tangent (c) secant

9. कोणक में इए सभी गद्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को
पूरिए :

सभी दूसरे होते हैं। (समांगतम्, समस्य)

Fill in the blank using correct word given in bracket :

All circles are (Congruent, Similar)

10. दूसर का दोषक्षम :

- (a) $\frac{1}{2}\pi r^2$ (b) πr^2 (c) $3\pi r^2$

Area of circle is

- (a) $\frac{1}{2}\pi r^2$ (b) πr^2 (c) $3\pi r^2$

2. अंक दाते ग्रन्ति :

All questions car-

11. 140 को जबाबदः
करो।

Express 140 as

12. तिन लाइन निम्न त

Prove that $7\sqrt{5}$

13. $(-5, 7)$ और $(-1$
कीमित।

Find the Dis-
 $(-5, 7)$ and $(-$

14. एक समचतुर्भुज व
 $(3, 0), (4, 5),$



26 and 91 is :

- (c) 26

सही जोड़ है -

- (d) 10

Quadratic Polynomial

- (c) 10

$$\neq \frac{c_1}{c_2} \text{ को समीकरण का}$$

- (d) कोई नहीं

$$\frac{b_1}{b_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}, \text{ The}$$

परिवर्तन है -

- (d) 36

Discriminant of the Quadratic equation

$2x^2 - 3x + 5 = 0$ will be

- (a) 31 (b) -31 (c) 36

5. A.P. -5, -1, 3, 7, का सार्व-अंतर (d) है :

- (d) -5 (b) -1 (d) 4

The common difference (d) of the A.P. -5, -1, 3, 7, is

- (a) -5 (b) -1 (d) 4

$\frac{\tan 26^\circ}{\cot 64^\circ}$ का मान है :

- (d) 1 (b) 0 (d) -1

The value of $\frac{\tan 26^\circ}{\cot 64^\circ}$ is :

- (a) 1 (b) 0 (c) -1

6. वृक्षांगत प्रवेश के अनुकार $(5)^2 + (12)^2 =$ _____

- (d) $(13)^2$ (b) $(14)^2$ (d) $(17)^2$

According to Pythagoras Theorem

$(5)^2 + (12)^2 =$ _____

- (a) $(13)^2$ (b) $(14)^2$ (c) $(17)^2$



The L.C.M. of two integers 26 and 91 is :

- (a) 13 (b) 182 (c) 26

2. दिए गए समान्तर शूल्क $x^2 + 7x + 10$ के मूलों का योग है -
(a) -7 (b) 7 (c) 10

The sum of zeros of the Quadratic Polynomial
 $x^2 + 7x + 10$ is :

- (a) -7 (b) 7 (c) 10

3. दीर्घक समीकरण पुस्तक में दिये गये $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ के समीकरण का
लक्षण होता है :

- (a) केवल एक (b) अनेक (c) कोई नहीं

In Pair of linear equation if $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$. The

system of equation will have

- (a) only one solution
(b) many solutions
(c) none

4. दिए गए समीकरण $2x^2 - 3x + 5 = 0$ का विभिन्नता है -

- (a) 31 (b) -31 (c) 36

Discriminant o

$$2x^2 - 3x + 5 = 0$$

- (a) 31 (b)

5. A.P. -5, -1, 3, 7,

- (a) -5 (b)

The common

A.P. -5, -1, 3, 7

- (a) -5

$\frac{\tan 26^\circ}{\cot 64^\circ}$ का मान

- (a) 1

The value of

- (a) 1

6. व्यापारी ने बेच

- (a) $(13)^2$

According

$$(5)^2 + (12)^2 =$$

- (a) $(13)^2$

म प्रसन-पत्र पर दग्धाई
ज्या लिखना अनिवार्य

ions, you must
the same question
paper.

२ अंग्रेज़।

Your answer.

1

between the

四

real questions

। तथा इ में कौन
कि प्राप्ति प्राप्ति

3 अंको वाले तथा छान्ड-५ प्रश्न संख्या 30 तक प्रत्यक्ष प्रश्न 5 अंको वाले प्रश्न है।

Question paper consists of 34 questions divided into four Sections A, B, C and D. Section-A, from Question No. 1 to 10 of 1 mark each. Section-B, from Question No. 11 to 17 of 2 marks each. Section-C, from Question No. 18 to 29 of 3 marks each and Section-D, from Question No. 30 to 34 are of 5 marks each.

(viii) रक्त कार्य प्रवन के साथ चैंपिए।

Rough work should be done along with the question.

四

Section-A

। अंक वाले प्रातः ॥

All questions carry 1 mark each :

4. दो पूर्णांक 26 तथा 91 का L.C.M. है :

(5) 13 (6) 182 (7) 26



(ii) प्रश्नों के उत्तर देते समय जो प्रश्न संख्या प्रश्न-पत्र पर दर्शी गई है, उत्तर-पुस्तिका पर वही प्रश्न संख्या लिखना अनिवार्य है।

While answering your questions, you must indicate on your answer-book the same question no. as appears in your question paper.

(iii) उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/पन्ने न छोड़ें।

Do not leave blank page/pages in your answer-book.

(iv) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

All questions are compulsory.

(v) ग्राफ पेपर उत्तर-पुस्तिका के बीच में संलग्न कीजिए।

Graph paper must be attached in between the answer-book pages.

(vi) त्रिकोण-गणित काले प्रश्नों में आकृति बनाना अनिवार्य है।

Drawing the diagrams in geometrical questions is compulsory.

(vii) प्रश्न-पत्र में 34 प्रश्नों के बारे चर्चा का अ. व. स. तथा द. में छोटा है। बार्च-अ. प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रश्नक संख्या छोटा है। बार्च-अ. प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रश्नक संख्या छोटा है।

3 अंकों काले तथा 5
प्रश्न 5 अंकों काले 2

Question paper
into four Sectio

Question No

Section-B. 1

2 marks each

to 29 of 3 "

Question No

(viii) रुक्मिणी प्रश्न :

Rough wor

question.

1 अंक काले

All questi

ने दीजिए 2

प्रश्न) 13